

रहबरे हज

eCard



मुज़दलफ़ा जाना

- ☆ 9 जुलहिज्जा मगरिब के फ़ोरन बाद मुज़दलफ़ा जाना.
- ☆ मुज़दलफ़ा पहुँच कर नमाज़े मगरिब और इशा जमा और क़सर करके अदा करना.
- ☆ मुज़दलफ़ा में रात गुज़ारना और वहाँ पर नमाज़ फ़ज़्र अदा करना.

अरफ़ात जाना

- ☆ 9 जुलहिज्जा को अरफ़ात जाना और गुरुबे आफ़ताब तक वहाँ रुकना.
- ☆ मैदाने अरफ़ात में किसी भी जगह बुकूफ़ (खड़े होना)करना.
- ☆ दोराने बुकूफ़ कसरत से ज़िक्रे इलाही, तिलावत कुरआन और असतफ़ाज़र करना.
- ☆ ज़ोहर के वक़्त पर नमाज़े ज़ोहर और नमाज़े असर जमा और क़सर करके अदा करना.

मिना जाना


- ☆ हज़ तमत्तो के लिए दोबारा एहराम बांधना.
- ☆ हज़ की नियत करना
اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ حَجًّا
- ☆ मिना में 5 नमाज़ें अदा करना (8 जुलहिज्जा की नमाज़ ज़ोहर से लेकर 9 जुलहिज्जा की नमाज़ फ़ज़्र तक)

उमराह

- ☆ काबा का तवाफ़ करना
- ☆ मक़ामे इब्राहीम(अ)के पास दो रकअत नफ़िल अदा करना.
- ☆ सफ़ा और मरवा की सई करना.
- ☆ सर के बाल कतरवाने या मुंडवाने के बाद एहराम खोल देना.

एहराम

- ☆ गुस्ल करना.
- ☆ मीक़ात से एहराम की नियत करना:
اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ بِالْعُمْرَةِ
- ☆ तल्विया पुकारना.
- ☆ हालते एहराम में ममनू कामों से बचना.



अरफ़ात

5



मुज़दलफ़ा

6



मिना



मक़ा

मीक़ात

2

मिना जाना

- ☆ सूरज तुलु होने से थोड़ा पहले मुज़दलफ़ा से मिना के लिए निकलना.
- ☆ जमरा उक़बा को सात कंकरियां मारना.
- ☆ कुरबानी करना.
- ☆ सर के बाल कतरवाना या मुंडवाना.
- ☆ एहराम खोलकर आम लिबास पहना.
- ☆ हाजी के लिए बीबी से हमबिसतरी के अलावा एहराम की पाबन्दियां ख़तम हो जाना.

तवाफ़े अफ़ादा

- ☆ मक़ा लोट कर तवाफ़े अफ़ादा करना.
- ☆ सफ़ा और मरवा की सई करना.
- ☆ तवाफ़े अफ़ादा के बाद एहराम की तमाम पाबन्दियां ख़तम हो जाना.

मिना वापस आना

- ☆ मिना में अय्यामे तशरीक़ 11, 12, 13 जुलहिज्जा गुज़ारना
- ☆ इन तीन दिनों में नमाज़े ज़ोहर के बाद तीनों जमरात को तरतीब से बारी बारी कंकरियां मारना.
- ☆ जल्दी जाने की सूरत में 12 जुलहिज्जा को सूरज गुरुब होने से पहले मिना छोड़ना.

तवाफ़े विदा

- ☆ मक़ा वापस जाकर तवाफ़े विदा करना.
- ☆ मक़ामे इब्राहीम(अ)के पास दो रकअत नफ़िल अदा करना
- ☆ मक़ा छोड़ने से पहले तवाफ़े विदा करना.

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ
لَبَّيْكَ لِأَشْرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ
إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكُ
لِأَشْرِيكَ لَكَ

تکبیرات

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ
(فتح الباری)

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ

اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
(صحیح مسلم)

AlHuda Welfare Trust India

Post Box Number 444, Basavanagudi Bangalore 560004 ,India

+918040924255. | +91-9535612224

alhuda.india@gmail.com

www.farhathashmi.com



۰۵۰۱۰۰۴۲

